



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 माघ 1938 (श10)

(सं0 पटना 60) पटना, मंगलवार, 24 जनवरी 2017

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी 2017

सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016-235—बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि —

- (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य में स्थापित अनाज आधारित आसवनियों से ई0एन0ए0 उत्पादन, भारत निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माणशाला अथवा बोटलिंग प्लांट और ब्रिवरी तथा उसकी बोटलिंग प्लांट की मौजूदा अनुज्ञप्ति का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा। अधिनियम की धारा-23 के अधीन क्षतिपूर्ति का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
 - (ii) छोआ आधारित आसवनियाँ सिर्फ पेट्रोल में सम्मिश्रण हेतु शत प्रतिशत इथनॉल का उत्पादन कर सकेंगी।
 - (iii) अनाज आधारित आसवनियों, भारत निर्मित विदेशी शराब के विनिर्माणशाला/बोटलिंग प्लांट और बीयर निर्माणशाला/बोटलिंग प्लांट के मौजूदा परिसर में ही नन अल्कोहलिक (शून्य प्रतिशत अल्कोहल) पेय/बिभरेज बनाने की, उनकी अधियाचना पर, स्वीकृति दी जायेगी।
- 2 यह अधिसूचना गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

24 जनवरी 2017

सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016-235 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 24th January 2016

No.11/Adhi. Karya.-01-06/2016-235—In exercise of the powers conferred under Section 24(1) of Bihar Prohibition & Excise Act, 2016, the State Government of Bihar has decided that -

- (i) The existing licenses of production of ENA from Grain based distilleries, IMFL manufactory or Bottling plant and Brewery or their bottling plant shall not be renewed by the State Government from the financial year 2017-18. Any claim of compensation shall not be admissible under section-23 of the Act.
 - (ii) The molasses based distilleries may produce cent percent ethanol only for compounding with petrol.
 - (iii) The Grain based distilleries, IMFL manufactory/ Bottling Plant and Brewery/Bottling Plant shall be permitted to manufacture non alcoholic (zero percent alcohol) Drinks/ Beverage in their existing premises on their requisition.
- (2) The notification shall come into force from the date of its publication in gazette.

By Order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 60-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>